

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :
: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(48)56 /Ahd-III/2015-16/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-002-16-17

दिनांक Date : 25.04.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue 1/5/16

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I) Ahmedabad

ग _____ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल
आदेश सं _____ दिनांक : _____ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: AHM-CEX-003-DC-11-2015 Date: 28.08.2015
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Nilkanth Specific Family Trust(Prop.Karan Paper Mills)

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे
बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में
पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को
की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision
Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the
following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने
में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में
चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a
warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of
processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क
कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित
है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside
India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any
country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया
माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of
duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- ए0बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं


(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 35F के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014) की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1998 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,


Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."




ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by **M/s Nilkanth Specific Family Trust, Prop. Karan Paper Mills, Plot No.1074/B, 1075 to 1078, Kadi -Kalol Road, Chhatral, Taluka-Kalol, Dist. Gandhinagar** (hereinafter referred to "as the appellant") against the Order-in-Original No.AHM-CEX-003-DC-11-2015 dated 28.08.2015 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kalol Division (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Facts of the case in brief that the appellant had availed Cenvat credit of Education Cess (EC) and Secondary and Higher Secondary Education Cess(SHSE) on the additional customs duty i.e countervailing duty (CVD) amounting to Rs.52,573/- during the period from April 2012 to August 2014 on imported goods (waste paper), though the said EC and SHSE on CVD had been abolished vide notification No.13/2012-Cus and 14/2012-Cus both dated 17.03.2012 and was shown as 0.00 in all Bills of Entries. On scrutiny of Bills of Entry for clearance of imported goods, it was observed that the appellant had paid customs EC paid @2% and SHSE @1% at the time of clearance of the imported inputs and these amounts paid by them were availed in the form of Cenvat Credit along with the amount paid against CVD. Therefore, a show cause notice dated 25.02.2015 was issued to the appellant by denying the credit so availed in contravention of Rule 3(1) of Cenvat Credit Rules, 2004 (CCR) and demanded Rs.52,573/- (Rs.35048/- EC + Rs.17,525/- SHSE) under rule 14 of CCR read with Section 11 A of the Central Excise Act, 1944 (CEA) with interest. A penalty under rule 15 of CCR read with Section 11AC of CEA was also proposed. The said show cause notice was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order and confirmed the demand by denying availment of said EC and SHSE with interest and imposed penalty of Rs.52,573/-.

3. Being aggrieved, the appellant had filed the present appeal on the grounds that they had filed the Bills of Entries generated by Customs online and paid the CVD @6%; that EC, SHSE on CVD is exempted on the value of CVD as per the Notification No.13/2012-Cus and 14/2012-Cus, however, the bills of entries generated in the EDI system, the said duties were charged in the Bills of Entries. Therefore, as per the provisions under the CCR, the credit on EC and SHSE was availed along with the credit of CVD. Hence, the said credit is required to be allowed since the amount of paid them is only. Penalty imposed under Rule 15 is not justifiable as there is no suppression of facts or any malafide act to take credit. They relied upon various case laws.

4. A personal hearing in the matter was fixed on 18.04.2016 and Shri M.A.Patel Consultant appeared for the same. He reiterated the grounds of appeal and submitted that no penalty should have been imposed.




4.1 I have carefully gone through the contents of the appeal memorandum and submissions made at the time of personal hearing. The main issue to be decided is whether the appellant is eligible for Cenvat credit of EC and SHSE paid by them in the instant case or otherwise.

4.2 It was contended by the department that the appellant had paid Customs EC @2% and Customs SHSE@1% at the time of clearance of imported goods and these amounts paid by them were availed in the form Cenvat credit along with the amount paid against CVD. On other hand, the contention of the appellant was that since customs duty and other duties are nil except CVD, whatever amount of EC and SHSE charged and paid was only on CVD.

4.3 I find that as per Section 3(1) of CCR, Cenvat credit can be availed of the amount paid as duty of excise specified in the first schedule of Central Excise Tariff Act, leviable under the Excise Act and in the instant case of the appellant relating to import of waste paper, I find that except CVD, customs and other duties were nil and levy of Education Cess (CE) and Secondary & Higher Secondary Education Cess (SHSE) on CVD were exempted vide Notification No.13/2012-Cus and 14/2012-Cus both dated 17.03.2012. As such, at the outset, I find that the Cenvat credit on such EC and SHSE is not admissible under the provisions of Rule 3(1) of CCR as narrated by the adjudicating authority in para 17 and 18 of the impugned order. The appellant argued that whatever amount charged and paid as EC and SHSE in the Bills of Entries was on CVD since other duties are nil and they are eligible to take credit when the department has charged though it was exempted by virtue of notification. The said argument is not acceptable. In the instant case, the appellant is having well knowledge of rules and regulation of customs tariff and Act and duty leviable thereof in respect of their imported goods and eligibility of Cenvat credit under CCR. As such, if the appellant had any doubt on charging of CVD with EC and SHSE in the bills of Entries without authority of law under the provisions of Customs Tariff Act, 1975 or under Customs Act, 1962, they could have challenged the assessment order at the material time before the proper authority and requested for rectification or refund. Instead of that, they have taken the said inadmissible Cenvat credit and raised the contention before the undersigned which is not proper and acceptable. Hence the plea of the appellant is not tenable. In the circumstances, the credit availed by the appellant required to be reversed with interest.

4.4 As regards the penalty imposed, I find that though the appellant knew the facts that the notification No.13/2012-Cus and 14/2012-Cus exempts EC and SHSE on CVD paid on their imported goods and no credit on such duty is allowed as per Rule 3(1) of CCR even though it was charged wrongly by the



authority. Still, the appellant had taken the credit without approaching proper authority for rectification. Hence, the penalty imposed by the adjudicating authority is as per the provisions and I upheld the same.

4.4 In view of above discussions, I do not find any merit to interfere the impugned order and the same is upheld. The appeal filed by the appellant is rejected.

Uma Shanker

(UMA SHANKER)
COMMISSIONER (APPEAL-I)
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD


Attested

Mohanan V.V.
(Mohanan V.V.)
Superintendent (Appeal-I)
Central Excise, Ahmedabad

Date: 25/04/2016

BY R.P.A.D

To,
M/s Nilkanth Specific Family Trust,
Prop. Karan Paper Mills,
Plot No.1074/B, 1075 to 1078,
Kadi -KaloI Road, Chhatral,
Taluka-Kalol, Dist. Gandhinagar



Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III
3. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Excise, Ahmedabad-III
4. The Dy. / Asstt. Commissioner, Central Excise, Division- Kadi, Ahmedabad-III
5. Guard file.
6. P.A file.